



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 1979/श्रावण 1, 1901
No. 237] NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 1979/ SR VANA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(साक्ष्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1979

सा.का.नि. 456(अ)/आ.वा./ईख.—केन्द्रीय सरकार, ईख (नियन्त्रण)
आवेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके
उप-खण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों,
निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे परामर्श करना वह
आवश्यक समझती है, ईख की आधारिक न्यूनतम कीमत 10 रुपये प्रति
क्विंटल के आधार पर, जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से सम्बद्ध है,
और जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वसूली
की वृद्धि पर 11.7647 पैसा प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपाबद्ध
अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में

तन्त्र प्रभावी रूप से नियत करती है, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात पात्र प्रक्रिया वाले चीनी के कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकर्ताओं द्वारा कारखानों द्वार पर या किसी क्रय केंद्र पर परिदत्त ईश के लिए चीनी वर्ष, 1978-79 के लिए 30 सितम्बर, 1979 तक संदेय होगा। किन्तु यह कीमत उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	कारखाने का नाम	ईश की रूपयों में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत
(1)	(2)	(3)
1.	सै० गाडिंगलाज तालुक सह- कारी शक्कर कारखाना लि०, गाडिंगलाज, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	10.00

[सं. 3/1/78-एस.पी.वाई(डेस्क-2)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव(श.)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1979

G.S.R. 456(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 10.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 11.7647 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, fixes, with immediate effect, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price and shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or at any purchasing centre for the sugar year, 1978-79 until the 30th September, 1979, subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

S. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal.
(1)	(2)	(3)
1.	M/s. Gadbinglaj Taluka Sahakari Sakkar-Karkhana Ltd., Gadbinglaj, District Kolhapur (Maharashtra).	10.00

[No. 3/1/78-SPY(D-II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

(Sugar)